




भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 83] नई दिल्ली शनिवार, मार्च 31, 1979/चैत्र 10, 1901
No. 83] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 31, 1979/CHAITRA 10, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आयात व्यापार निर्यन्त्रण

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1979

सार्वजनिक सूचना सं. 22-आई. टी. सी. (पी. एन.)/79

विषय : स्वर्ण आभूषण निर्यात प्रतिपूर्ति योजना

मिशन सं. 12/4/78-ई. पी. सी.—वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक सूचना सं. 15-
आई. टी. सी. (पी. एन.)/79 दिनांक 1 मार्च, 1979 की शीर्ष ध्यान आकृष्ट किया जाता है,
जिसमें यह अधिसूचना किया गया था कि 31 मार्च, 1979 मास के दौरान उपर्युक्त योजना

के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक द्वारा बेचे जाने वाले शुद्ध सोने (1.000 उत्तम शुद्धता) की कीमत प्रति 10 ग्राम पर किसी भी लागू स्थानीय करों के छोड़कर 720 रु. होगी।

2. स्थिति की पुनरीक्षा करने के पश्चात्, एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि अप्रैल, 1979 के महीने के दौरान भारतीय स्टेट बैंक द्वारा उपयुक्त योजना के अंतर्गत सिवार्ड आदेश धारकों के जिस कीमत पर सोना बेचा जाएगा वह शुद्ध सोने (1.000 उत्तम शुद्धता) की प्रति 10 ग्राम पर लागू किसी भी स्थानीय करों के छोड़कर 700/- (सात सौ रुपए मात्र) होगी।

का. वं. शेषाद्री, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

(Department of Commerce)

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 31st March, 1979

PUBLIC NOTICE NO. 22-ITC(PN)/79

Subject : Gold Jewellery Export Replenishment Scheme.

F. No. 12/4/78-EPC.—Attention is invited to the Department of Commerce Public Notice No. 15-ITC(PN)/79, dated the 1st March, 1979 notifying that the price at which the gold will be sold under the said Scheme by the State Bank of India on or before the 31st March, 1979 would be Rs. 720/- for 10 grammes of puregold (1.000 fineness) exclusive for any local taxes applicable thereto.

2. On a review of the position, it is hereby notified that the price at which gold will be sold to the Release Order holders under the said Scheme by the State Bank of India during the month of April, 1979 would be Rs. 700/- (Rupees Seven hundred only) for 10 grammes of pure gold (1.000 grammes), exclusive of any local taxes applicable thereto.

K. V. SESHADRI,

Chief Controller of Imports and Exports